

फॉर्म - 242 (अनुसू) आ.म.वि. 2018-19 दिनांक - 15-4-2018

वरिष्ठ मानचित्रकों का विवरण

कार्यालय	सुगम/दुर्गम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	सुगम	02	01	01
अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	दुर्गम	01	01	-
संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायु मण्डल हल्द्वानी	दुर्गम	01	01	-
		04	03	01








DDA



वरिष्ठ मानचित्रक के कार्मिक के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद तथा दुर्गम-सुगम में तैनात कार्मिक, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक एवं सुगम-दुर्गम में रिक्त पदों का विवरण


क्र० सं०	निदेशालय / मण्डल / जनपद स्तर के पदनाम	पदों का विवरण					सुगम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम के लिये पात्र कार्मिक	दुर्गम में रिक्त पद			सुगम के लिये पात्र कार्मिक	सुगम में रिक्त पद			अभ्युक्ति
		कुल स्वी० पद	कार्यरत	रिक्त पद						वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग		वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग	
				प्रतिनियुक्ति पर	वास्तविक रिक्त	कुल रिक्त											
1	वरिष्ठ मानचित्रक	4	3	-	01	01	02	01	0	-	-	-	-	01	-	01	
	योग	4	3	-	01	01	02	01	0	-	-	-	-	01	-	01	


(रिंकी रावत)
प्रधान सहायक


(दिनेश जोशी)
मु०प्र०अ०


(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)


(डॉ० ए०के०वर्मा)
उ०कृ०नि० मा०स०


(के०पी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक

(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक

कृषि विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता के कार्मिकों का तैनाती विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	सेवा निवृत्ति की तिथि	स्थानान्तरण हेतु चिन्हीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	श्री हीरालाल मट्ट, ब०मा०	स्व० गशाप्रसाद	टिहरी	क०एवं भू०र०अ० रायपुर	देहरादून	01.04.2011 से वर्तमान तक	7 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	2 वर्ष 04 माह 00 दिन	34 वर्ष 02 माह 24 दिन	31.7.2018	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
2	श्री राकेश चन्द्र चमोली ब०मा०	श्री कुशलानन्द	पौड़ी	अ०क०नि०ग०म०मैडी	पौड़ी	27.11.2017 से वर्तमान तक	00 वर्ष 08 माह 02 दिन	दुर्गम	24 वर्ष 11 माह 25 दिन	09 वर्ष 01 माह 22 दिन	31.05.2023	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
3	हीरा सिंह बिष्ट ब०मा०	श्री मदन सिंह	अल्मोडा	सं०क०नि० इल्हानी	नैनीताल	01.08.2016 से वर्तमान तक	1 वर्ष 09 माह 28 दिन	सुगम	14 वर्ष 01 माह 16 दिन	1 वर्ष 09 माह 28 दिन	30.06.2037	सुगम में तैनात

Signature









कृषि विभाग में कार्यरत मानचित्रकों का सुगम स्थानों में तैनाती विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	स्थानान्तरण हेतु चिन्हीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	श्री हीरालाल भट्ट, ब०मा०	श्री गणेशप्रसाद	टिहरी	कृ०एवं नू०सं०अ० रायपुर	देहरादून	01.04.2011 से वर्तमान तक	7 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	2 वर्ष 04 माह 00 दिन	34 वर्ष 02 माह 24 दिन	16.7.1958	31.7.2018	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
2	श्रीरा सिंह शिष्ट ब०मा०	श्री मदन सिंह	अल्मोडा	सं०कृ०शि० हल्द्वानी	नैनीताल	01.08.2016 से वर्तमान तक	1 वर्ष 09 माह 28 दिन	सुगम	14 वर्ष 01 माह 16 दिन	1 वर्ष 09 माह 28 दिन	30.6.1977	30.06.2037	सुगम में तैनात











कृषि विभाग में कार्यरत गानधित्रकों की दुर्गम स्थानों में तैनाती विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि 31.5.2018 तक	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	स्थानान्तरण हेतु चिन्हीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	श्री शकेश चन्द्र चमोली ब०भा०	श्री कुशलानन्द	पौड़ी	अ०क०नि० ग०भ०पौड़ी	पौड़ी	27.11.2017 से वर्तमान तक	00 वर्ष 06 माह 02 दिन	दुर्गम	24 वर्ष 11 माह 25 दिन	09 वर्ष 01 माह 22 दिन	15.5.1963	31.05.2023	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्षिक









